Paytm

One97 Communications Limited

Corporate Office: B 121, Sector 5, Noida 201301, India T: +91 120 4770770 F: +91 120 4770771 CIN: U72200DL2000PLC108985

Registered Office: First Floor, Devika Tower, Nehru Place,

E-mail: info@One97.com Website: www.One97.com

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ("EGM") AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the EGM of the members of One97 Communications Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 02, 2021 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as set out in the Notice of the EGM dated August 09, 2021 ("EGM Notice").

In view of the unprecedented situation due to COVID-19 pandemic and the ongoing government restrictions on the movement and congregation of persons in the Delhi-NCR Region and in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020 and 10/2021 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred as "MCA Circulars") prescribing the procedures and manner of conducting the EGM through VC/OAVM, the EGM is being held through VC/ OAVM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the EGM Notice through electronic mode (e-mail) to all those members whose email address are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") on Monday, August 09, 2021. The EGM Notice has been sent to the members holding the shares as on Friday, August 06, 2021. The EGM Notice is also available on the website of the Company i.e. $\underline{www. One 97.com}\,$ and on the website of e-voting agency i.e. LinkIntime India Private Limited ("LinkIntime") at https://instavote.linkintime.co.in

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing remote e-voting facility (prior to EGM) and e-voting/ InstaPoll (during the EGM) to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the EGM Notice. The Company has engaged the services of LinkIntime as the agency to provide e-voting facility.

The cut-off for determining the eligibility to vote at the EGM shall be Thursday, August 26, 2021. Any Person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the EGM. Remote E-voting is optional and the same will commence Monday, August 30, 2021 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, September 01, 2021 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be disabled thereafter. A person who is not a member as on Thursday, August 26, 2021 should treat the EGM Notice for information purposes only.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of EGM Notice and holds shares as on cut-off date, i.e. Thursday, August 26, 2021, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned in the EGM Notice.

The Company is also providing facility to the eligible members to cast their vote through electronic means (InstaPoll) at the EGM on the business specified in the EGM Notice. The members who have cast their vote by e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Once a member casts vote on the resolution, it will be recorded in the system and cannot be changed subsequently. Members who don't receive the Notice of EGM may apply to the Company and obtain the same.

For detailed instructions of e-voting at the EGM and attending the EGM through VC/OAVM, members may refer to the Section "Procedure for E-voting at the EGM" and "Process and Manner for attending the EGM virtually through InstaMeet" given in the EGM Notice

In case members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

Login type	Helpdesk details
Individual shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at: 022-23058738 or 022-23058542-43

Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update the same by sending scanned copy of (i) signed request letter mentioning name, folio number and complete address (ii) self-attested copy of the PAN Card to RTA of the Company at enotices@linkintime.co.in. Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses with their DP, are requested to register/update their email addresses with the respective DP.

In case members have any difficulty or queries in connection with attending the meeting through VC or casting vote through e-voting system, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs'), InstaVote e-Voting manual and InstaMeet manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: 022-4918 6000. Members may also contact to Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, LinkIntime at the designated email ID: rajiv.ranjan@linkintime.co.in or may call at 022-49186000 for queries/grievances related to e-voting.

For One97 Communications Limited

Sd/-Place: Noida **Amit Khera** Date: August 09, 2021



UCO Bank invites Requ . Supply, Installation and Maintenance of 15 nos. of Static Transfer Switche

(STS) for Single Power Module devices 2. Procurement of Backup Links for Critical Applications for Redundancy.

Procurement of storages for Overseas CBS at DC and DR Location 4. Supply, implementation and maintenance of Instant Personalized Debi

Card Printer in the Bank For details, please refer to our website https://www.ucobank.com

Deputy General Manager (DIT, BPR & BTD) Date: 10.08.2021 **Honours your Trust**

(YOY)

Earning Per Share (Rs. 10 each) (Rs.)

(Basic not annualised)

SALASAR SALASAR TECHNO ENGINEERING LIMITED

CIN: L23201DL2001PLC174076 Regd Office: E-20, South Extension I, New Delhi-110049 Ph: +91-120-6546670: E-mail id: towers@ asartechno com Wahsita: www.salasartechno.com **NOTICE**

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 (LODR), a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday,14th August 2021at 01:00 P.M. through video conferencing, inter-alia to consider and approve the Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2021 and to consider and approve any other madiscussed by the Board.

n accordance with Regulation 46(2) and 47(2) of LODR, the details of the said meeting are also available on website of the Company viz. http://www.salasartechno.com as well as on the of Stock Exchanges at http://www.nseindia.com.

By order of the Board of Director For Salasar Techno Engineering Limite

(Rahul Rastogi) Date: 09th August, 2021 Company Secretary

(YOY)

1.5

Rs. In Lacs (except Earinings per share)



Quarter ended Year ended **Particulars** 30.6.2021 30.6.2020 31.03.2021 Unaudited **Audited Audited** 2012 743 Total Income from Operations 6498 Earnings before Interest, Tax, Depreciation and 379 49 752 Amortization (EBITDA) Profit/(Loss) before Tax (PBT) 218 -121 50 Profit/(Loss) after tax (PAT) 174 -125 180

Leading Ferrite Cores Manufacturer







1.45





-1.03

Note:

The above is an extract of the Financial Results and is not a statutory advertisement required under SEBI quidelines. The detailed financials are available on the website of the Company at www.cosmoferrites.com



Regd. Office: Jabli, Distt. Solan, Himachal Pradesh - 173209

CIN: L27106HP1985PLC006378, Tel: 01792-277231-32/35/36, Fax: 01792-277234 Website: www.cosmoferrites.com, E-mail: investorservices@cosmoferrites.com

Elgi Rubber Company Limited

CIN: L25119TZ2006PLC013144 Regd. Office: 2000 Trichy Road, Coimbatore 641005, Tamil Nadu, India Tel: +91 (422) 232 1000; Fax: +91 (422) 232 2222 E-mail: iepf@in.elgirubber.com; Website: www.elgirubber.com

NOTICE

Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit Transfer and Refund) Rules, 2016 as under:

In accordance with the Investor Education and Protection Fund (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, effective from September 07, 2016, all the shares in respect of which the dividend has not been claimed / paid for 7 consecutive years or more are liable to be transferred to the IEPF account Hence, the shareholders may note that all the shares in respect of which the dividend has not been claimed / paid for 7 consecutive years since the FY 2013 14 are liable to be transferred to the IEPF account as per the said rules.

The Company has sent individual notices on 07 August, 2021 through registered post to the concerned shareholders whose dividends are lying unclaimed / unpaid since 2013-14, advising them to claim their dividen amounts expeditiously.

The statement containing the details of name, address, folio number / dema account number and number of shares liable for transfer to IEPF account is made available in our website www.elgirubber.com for necessary action by the shareholders.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF account, may note that the company would be issuing duplicate share certificate in lieu of original share certificate held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF account as per the rules and upon such issue, the original certificates which are registered in thei name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

The shareholders are requested to contact M/s. Link Intime India Private Limited, "Surya", 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Coimbatore 641 028, Registrar & Share Transfer Agent, on or before 31 October, 2021, to claim their dividend(s) which is lying unclaimed / unpaid since 2013-14. In case, the Company does not receive any valid communication from the concerned shareholders on or before 31st October, 2021, the Company shall transfer such shares to the IEPF demat account as per the rules.

The shareholders may note that they can claim back both the unclaime dividend and the shares including all benefits accruing on such shares, if any by making separate application to the IEPF Authority, in the prescribed Forr IEPF-5, as stipulated under the said Rules and the same is available at IEPI

website i.e., www.iepf.gov.in For any further queries / clarification on the above subject matter, th shareholders may contact M/s. Link Intime India Private Limited, "Surya", 35 Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam, Coimbatore 641 028 Registrar & Share Transfer Agent of the Company, at Tel: 0422-2315792 / Fax 0422-2314792 / E-mail: coimbatore@linkintime.co.in.

For Elgi Rubber Company Limited

Sasikumar G 07 August, 2021 Company Secretary Coimbatore



BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED

Regd. Office: FMC Fortuna, 2nd floor, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700020 CIN: L15421WB1975PLC030118, Phone No.: (033) 22874749, Fax No.: (033) 22892633 E-mail: bcml@bcml.in Website: www.chini.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2021

(₹ in lakhs except EPS data)

		STANDALONE		CONSOLIDATED)	
SI. No.	PARTICULARS	3 months ended 30/06/2021	Year ended 31/03/2021	Corresponding 3 months ended 30/06/2020 in the previous year	3 months ended 30/06/2021	Year ended 31/03/2021	Corresponding 3 months ended 30/06/2020 in the previous year
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1)	Total Income from operations	114,044.27	481,165.70	143,033.71	114,044.27	481,165.70	143,033.71
2)	Net Profit for the period / year (before tax and exceptional items)	9,682.58	59,610.90	17,736.90	10,191.14	60,917.96	18,325.84
3)	Net Profit for the period / year (before tax) (after exceptional items)	9,682.58	59,610.90	17,736.90	10,191.14	60,917.96	18,325.84
4)	Net Profit for the period / year after tax (after exceptional items)	7,302.54	46,977.22	13,457.27	7,692.62	47,979.00	13,909.01
5)	Total Comprehensive Income for the period / year [comprising Profit for the period / year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,269.75	46,921.51	13,313.82	7,659.85	47,923.38	13,765.45
6)	Equity Share Capital	2,100.00	2,100.00	2,200.00	2,100.00	2,100.00	2,200.00
7)	Other equity		254,284.60 (As at 31/03/2021)			259,814.78 (As at 31/03/2021)	
8)	Earnings per share (Face value of ₹ 1/- each) (not annualised for quarterly figures): Basic and Diluted (₹)	3.48	22.01	6.12	3.66	22.48	6.32

The above is an extract of the detailed Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

The full quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website i.e. (www.nseindia.com /www.bseindia.com) and Company's website (www.chini.com).

2) The consolidated financial results include figures pertaining to two associate companies; Visual Percept Solar Projects Pvt. Ltd. (VPSPPL) and Auxilo Finserve Pvt. Ltd. (AFPL).

The Board of Directors of the Company have approved the buy-back of fully paid-up equity shares of the face value of ₹ 1/- each of the Company at a price not exceeding ₹ 410/- per Equity Share ("Maximum Buyback Price") and for an amount not exceeding ₹ 21,525.00 lakhs ("Maximum Buyback Size") through the "Open Market" route using the Stock Exchange Mechanism in the manner as prescribed in the Companies Act, 2013 and relevant rules thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Buyback Securities) Regulations, 2018.

Sugar being a seasonal industry, the performance of the Company varies from quarter to quarter and results for the quarter as such are not representative of the annual performance of

5) The previous year's/period's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to make them comparable with those of the current year's/period's figures.

For and on behalf of the Board of Directors of **Balrampur Chini Mills Limited** Vivek Saraogi

Managing Director





Place of Signature : Kolkata

Date: 9th August, 2021













MUTUAL

FUNDS

MUTUAL

FUNDS

MUTUAL

स्रोतः एम्फी

बंदरगाह विकास योजना को मिली रही अच्छी प्रतिक्रिया

अदाणी, डीपी वर्ल्ड, एस्सार और बक्सी ग्रुप जैसी प्रमुख कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है

शाइन जैकब और अदिति दिवेकर चेन्नई/मुंबई, ९ अगस्त

सरकारी बंदरगाहों द्वारा संचालित सात मालवाहक जहाजों को विकसित करने के लिए सरकार की 2.500 करोड़ रुपये की योजना को लेकर उद्योग ने उत्साह जताया है। वीओ चिदंबरनार पोर्ट टस्ट

(वीओसी) और परादीप पोर्ट को अदाणी पोटर्स ऐंड स्पेशल इकोनोमिक जोन (एपीएसईजेड). दुबई सरकार के स्वामित्व वाली



डीपी वर्ल्ड एस्सार, जे एम बक्सी ग्रप और एपीएम टर्मिनल्स मैनेजमेंट बीवी जैसी विभिन्न कंपनियों से निविदाओं के लिए आवेदन मिले हैं। तमिलनाडु में वीओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट (पूर्व में तूतीकोरिन पोर्ट

टस्ट के नाम से चर्चित) से संबंधित घटनाक्रम से अवगत एक अधिकारी ने कहा, 'बर्थ नंबर 9 के लिए, हम करीब 400 करोड़ रुपये के निवेश से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में बल्क कारगो टर्मिनल की योजना बना रहे हैं। ईओआई के चरण में, हमें करीब आधा दर्जन कंपनियों से दिलचस्पी हासिल हुई है। अदाणी, डीपी वर्ल्ड, एस्सार और बक्सी ग्रुप जैसी प्रमुख कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है।' अन्य अधिकारी ने कहा कि मुंबई, 9 अगस्त

उत्साह बढा।

शानदार मासिक पुंजी प्रवाह

दर्ज किया। इक्विटी बाजार में

सकारात्मक निवेशक धारणा का

लाभ उठाने के लिए नई फंड

पेशकशों (एनएफओ) से भी

22.583 करोड रुपये का शद्ध पंजी

प्रवाह दर्ज किया, जो अगस्त 2017

के बाद से सर्वाधिक है। अगस्त

2017 में पूंजी प्रवाह 20,363 करोड़

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल

फ्लेक्सीकैप एनएफओ के जरिये

परिसंपत्ति प्रबंधन उद्योग ने करीब

13,709 करोड रुपये जुटाए। मौजुदा

इक्विटी फंडों ने भी मिड-कैप और

स्मॉल-कैप शेयरों में भारी तेजी के

बावजुद लगातार निवेशक प्रवाह

आकर्षित किया, भले ही लार्ज-

कैप श्रेणी जुलाई में सपाट बनी रही।

एएमसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य

कार्याधिकारी ए बालासब्रमण्यन का

आदित्य बिडला सनलाइफ

रुपये पर दर्ज किया गया था।

इक्विटी-केंद्रित योजनाओं ने

एस्सार समेत कई निजी कंपनियां पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पर करीब 75 करोड रुपये की लागत से साउथ क्यु बर्थ (एसक्युबी) को विकसित करने की दौड़ में हैं। वहीं वीओसी भी नॉर्थ कारगो बर्थ-3 को विकसित करने की योजना बना रहा है, जिसमें पीपीपी मॉडल के आधार पर करीब 420 करोड रुपये का निवेश हो सकता है।

यह आम बजट में वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश प्रस्ताव का हिस्सा था। वित्त मंत्री ने संकेत दिया था कि 2,000 करोड़ रुपये की सात परियोजनाएं बंदरगाहों के नए मॉडल के तहत निजी कंपनियों को सौंपी जाएंगी। फरवरी 2021 में संसद द्वारा पारित नए कानून के तहत, बंदरगाहों को प्रशासन के प्राधिकरण मॉडल के दायरे में लाए जा रहे हैं। एस्सार के एक अधिकारी ने इसकी पृष्टि की कि कंपनी ने चिदंबरनार और पारादीप परियोजनाओं में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। सात परियोजनाओं में सबसे बडी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) पर है, जिसके तहत करीब 860 करोड़ रुपये के निवेश से उसके कंटेनर टर्मिनल का निजीकरण किए जाने की योजना है।

म्युचुअल फंडों की लोकप्रियता विवटी म्युचुअल फंडों (एमएफ) ने जन्म

मार्च से इक्विटी-आधारित एमएफ योजनाओं में हुआ 51,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश

इक्विटी योजनाओं में शानदार निवेश

करोड़ रुपये में	इक्विटी योजनाओं में प्रवाह
अगस्त, २०२०	-4,000
सितंबर, २०२०	-734
अक्टूबर, २०२०	-2,725
नवंबर, २०२०	-12,917
दिसंबर, २०२०	-10,147
———— जनवरी, २०२१	-9,253
- फरवरी, 2021	-4,534
——— मार्च, 2021	9,115
	3,437
——— मई, 2021	10,083
	5,988

कारणों में से एक है।'

जुलाई, 2021

पिछले पांच महीनों में, इक्विटी फंडों ने 51,207 करोड़ रुपये का शृद्ध पुंजी प्रवाह दर्ज किया, जो पूर्ववर्ती सात महीनों के दौरान दर्ज की गई निकासी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन है। फ्लेक्सीकैप श्रेणी में 11,508 करोड रुपये का पुंजी प्रवाह दर्ज किया गया, जिसके बाद सेक्टोरल फंडों का योगदान रहा जिनमें 5,728 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रवाह आकर्षित हुआ। वैल्य फंडों और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) ने इक्विटी श्रेणी में शुद्ध पूंजी निकासी दर्ज की।

फंडसइंडिया के शोध प्रमुख अरुण कमार का कहना है, 'कम खर्च की वजह से पिछले साल ऊंची बचत करने वाले ज्यादातर निवेशक फिर से बाजार में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दूसरी लहर में नरमी, इक्विटी से मजबूत प्रतिफल से भी बाजार में निवेशकों का भरोसा बढा है।'

22,584

इक्विटी योजनाओं के प्रदर्शन में सुधार से निवेशकों से मजबूत निवेश भागीदारी को बढावा मिला है। पिछले एक साल में, औसत लार्जकैप फंडों ने 46.5 प्रतिशत का

प्रतिफल दिया, जबकि मिडकैप ऑर स्मॉलकैप फंडों ने 71 प्रतिशत तथा 98 प्रतिशत का प्रतिफल दिया।

एसआईपी के जरिये भी निवेश जून के मुकाबले जुलाई में बढा था। जुलाई में एसआईपी का योगदान 9,609 करोड़ रुपये रहा, जो जून में 9,155 करोड़ रुपये था। एसआईपी एयूएम बढ़कर 5.03 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गईं। जुलाई, 2021 के दौरान नए एसआईपी पंजीकरण 23.7 लाख रहे, जो इस उद्योग में सर्वाधिक पंजीकरण है।

एम्फी के मुख्य कार्याधिकारी एन एस वेंकटेश ने कहा, 'आरबीआई के अनुकूल रुख, मजबूत आय वृद्धि, टीकाकरण-केंद्रित कोविड महामारी नियंत्रण और वैश्विक तथा घरेल तरलता से इक्विटी बाजारों में ऐतिहासिक तेजी को बढावा मिला। इसे ध्यान में रखते हुए छोटे निवेशक भी इक्विटी तेजी में भागीदार बन रहे हैं और वे काफी हद तक म्युचुअल फंड एसआईपी के जरिये दांव लगा रहे हैं।' इक्विटी फंडों के अलावा, हाइब्रिड और अन्य योजनाओं (जिनमें देश से बाहर निवेश करने वाले पैसिव और फंड ऑफ फंड भी शामिल हैं) ने 19,481 करोड़ रुपये और 10,084.16 करोड़ रुपये का शुद्ध पुंजी प्रवाह आकर्षित किया। हाइब्रिड योजनाओं के तहत, आर्बिट्राज फंडों ने जुलाई में 14,924 करोड रुपये का शुद्ध पूंजी प्रवाह दर्ज किया। डेट-आधारित योजनाओं ने भी जुलाई में करीब 73,694 करोड रुपये का शुद्ध पुंजी प्रवाह आकर्षित

में ठहराव भी अब दूर हो रहा है।

कहना है कि पूंजी प्रवाह विभिन्न श्रेणियों से आ रहा है और एसआईपी बालासुब्रमण्यन ने कहा, 'मेरा मानना है कि वैकल्पिक निवेश अवसर अब काफी कम रह गए हैं और इसकी वजह से निवेशक इक्विटी में बड़ा निवेश करने को इच्छुंक हो रहे हैं। इक्विटी फंडों में लगातार प्रवाह के लिए यह मुख्य

One97 कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड



कॉपॅरिट कार्यालय: बी 121, सेक्टर 5, नोएडा 201301, इंडिया टेलिफोन: +91 120 4770770 फैक्स: +91 120 4770771 CIN: U72200DL2000PLC108985

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

ई-मेल: info@One97.com वेबसाइट: www.One97.com

असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") और ई-वोटिंग की सूचना

सूचित किया जाता है कि One97 कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (**"कंपनी"**) सदस्यों की ईजीएम का आयोजन **विडियो कॉन्फ्रेसिंग** ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल यानी ("ओएवीएम") के माध्यम से बृहस्पतिवार, 02 सितम्बर, 2021 को पूर्वाह्र 11.00 बजे (भारतीय समयानुसार) होगा जिसमें ०९ अगस्त, २०२१ की ईजीएम सुचना ("ईजीएम नोटिस") में निर्धारित किये गये व्यवसायों के

कोविड-१९ महामारी से उत्पन्न अभृतपूर्व स्थिति और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही और बैठकों पर चल रहे सरकारी

प्रतिबंधों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन के मद्देनज़र जिसके तहत तैयार किये गये सामान्य सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020) और 10/2021 के साथ कॉपॉरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी (सामुहिक रूप से "**एमसीए सर्कुलर"** के रूप में संदर्गित) प्रक्रियाओं को निर्धारित करते <u>ह</u>ये और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम को संचालित करने का तरीका, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है.

उपरोक्त वर्णित सर्कुलरों के अनुपालन में, कंपनी ने सोमवार, ०९ अगस्त, २०२१ को उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मेल) के माध्यम से ईजीएम की सूचना भेज दी है, जिनका ईमेल पता कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("**डीपी**") के साथ पंजीकृत है. ईजीएम नोटिस शक्रवार, ०६ अगस्त, २०२१ को शेयर रखने वाले सदस्यों को भेजा गया है. ईजीएम सूचना कंपनी की वेबसाइट www.One97.com पर उपलब्ध है. और ई-वोटिंग एजेंसी यानी लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंकइनटाइम") की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है.

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, जिसे कि समय-समय पर संशोधित किया गया है और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठको पर सचिविय मानक के अनुसार, कंपनी अपने सभी सदस्यों को ईजीएम नोटिस में निर्धारित किये गए सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिये रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (ईजीएम से पहले) और ई-वोटिंग/इंस्टापोल (ईजीएम के दौरान) प्रदान कर रही है. कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिये एजेंसी के रूप में लिंकड़नटाड़म की सेवाएं ग्रहण की हैं.

ईजीएम में वोट की मान्यता निर्धारित करने के लिये कट-ऑफ़ की तिथि **बहस्पतिवार, 26 अगस्त, 2021** होगी. कोई भी व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ़ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाये गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है वो ही केवल ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के साथ वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा. रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है जो सोमवार, 30 अगस्त, 2021 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और बुधवार, 01 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 (भारतीय समयानुसार) समाप्त हो जायेगी. इस समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी और उसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जायेगा. अगर कोई व्यक्ति बृहस्पतिवार, 26 अगस्त, 2021 को सदस्य नहीं है ते वह इस ईजीएम नोटिस को केवल सचना मात्र ही समझे.

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और ईजीएम सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ़ तिथि यानी **बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, २०२१** को शेयर रखता है तो वह यूजर आईडी और पासवर्ड ईजीएम नोटिस में बताये गये उल्लेख के अनसार प्राप्त कर सकता है.

कंपनी मान्य सदस्यों को ईजीएम नोटिस में उल्लेखित व्यवसाय पर ईजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (इंस्टापोल) के माध्यम से अपना वोट डालने की सुविधा दे रही है. जिन सदस्यों ने पहले ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वो भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे. एक बार कोई सदस्य स्वीकृत प्रस्ताव पर वोट कर देता है तो वह सिस्टम में दर्ज हो जायेगा एवं उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी. जिन सदस्यों को ईजीएम की सूचना प्राप्त नहीं हुई है वो

ईजीएम में ई-वोटिंग के सम्पूर्ण निर्देशों और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिये, सदस्य **"ईजीएम में** ई-वोटिंग की प्रक्रिया" और "इंस्टामीट के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और तरीके" के लिये ईजीएम नोटिस में सेक्शन/अनुभाग देख सकते हैं.

यदि डीमैट मोड में प्रतिभृति रखने वाले सदस्यों को डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने में कोई समस्या आती है तो वो नीचे दिये गये हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं:

लॉगिन टाइप	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक.	लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं.
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड	लॉगिन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य

में प्रतिभृति रखने वाले व्यक्तिगत

स्थान नोएडा

तिथि: ९ अगस्त, २०२१

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वो (i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र में नाम, फोलियो नंबर और पूरा पता (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित की हुई स्कैन कॉपी कंपनी के आरटीए को enotices@linkintime.co.in पर भेजकर पंजीकृत/अपडेट करें. डीमैटिरियालाइज़्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डीपी के साथ अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे संबंधित डीपी के साथ अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने का अनुरोध किया जाता है.

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर

या 022-23058542-43 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

सीडीएसएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं या 022- 23058738

यदि सदस्यों को वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने य ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने में कोई कठिनाई या प्रश्न है, तो वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूएस"), इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल और इंस्टामीटर मैनुअल को

https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध हेल्प सेक्शन के तहत देख सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं अथवा टेलि. 022 -4918 6000 पर कॉल कर सकते हैं. सदस्य श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष से निर्दिष्ट ई-मेल आईडी rajiv.ranjan@linkintime.co.in पर भी सम्पर्क कर सकते हैं और ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों/शिकायतों के लिए 022-49186000 पर कॉल कर सकते हैं.

कृते One97 कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड

अमित खेडा

कंपनी सचिव

कॉरपोरेट ऋण लक्ष्य घटाएगी पीएनबी हाउसिंग

पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक अपने कॉरपोरेट ऋण बही-खाते को 10.000 करोड़ रुपये से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी खुदरा ऋण गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के अंत में पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस का कुल कॉरपोरेट ऋण 10,989 करोड़ रुपये था, जो उसकी कुल प्रबंधन परिसंपत्तियां का 15 प्रतिशत था। पंजाब नैशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी का कारोबार कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित हुआ है। पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ हरदयाल प्रसाद ने एक साक्षात्कार में बताया, 'चालू तिमाही (जून 2021) में हम कॉरपोरेट उधारी के लिहाज से बही को लगभग 800 करोड़ रुपये कम कर सके हैं और हम इसे 10,000 करोड़ रुपए से नीचे (मार्च 2022 तक) लाना चाहते हैं। कंपनी ने मार्च 2020 से अपने कॉरपोरेट ऋण बही में 25 फीसदी कटौती की है। प्रसाद ने कहा कि किसी न किसी स्तर पर कंपनी को कॉरपोरेट ऋण के आकार को लेकर फैसला करना था।

सेबी कॉरपोरेट बॉन्ड खंड को मजबूत बनाएगा

कॉरपोरेट बॉन्ड खंड को विकसित और मजबृत करने के लिए भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बाजार निर्माताओं के एक समूह की नियुक्ति करने पर विचार कर रहा है। ये संस्थाएं कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए द्वितीयक बाजार में नकदी पैदा करने के लिए ऐसे बॉन्ड की खरीद और बिक्री मुल्य को उद्धत करती हैं। इसके साथ ही नियामक कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदने के लिए बैकस्टॉप सविधा स्थापित करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।सेबी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि वह कॉरपोरेट बॉन्ड के डेटाबेस में सधार करने पर विचार भी कर रहा है। यह डेटाबेस निवेशकों को अधिक बारीक जानकारी उपलब्ध कराएगा। नियामक ने हाल के दिनों में द्वितीयक बाजार में नकदी की सुविधा के लिए कई

वोडाफोन के कर्ज पर डॉट से मिले बैंक

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के एक समूह ने दुरसंचार विभाग (डॉट) को बताया कि तनावग्रस्त दुरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के कर्ज को इक्विटी में बदलना कंपनी को संकट से बाहर निकालने का एक विकल्प हो सकता है। डॉट ने वोडाफोन आइंडिया और भारती एयरटेल सहित दुरसंचार कंपनियों द्वारा देय समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित बकाया पर उच्चतम न्यायालय के आदेश से पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को बुलाया था। शीर्ष न्यायालय ने 93,520 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 10 साल का वक्त दिया है।

सेमीकंडक्टर कारोबार में उतरेगा टाटा समूह

पृष्ठ-1 का शेष

टाटा मोटर्स ने हाल ही में घोषणा की थी कि ब्रिटेन में सेमीकंडक्टर की भारी किल्लत की वजह से उसकी सहायक इकाई जगुआर लैंडरोवर को आने वाली तिमाही में बडा नुकसान होगा। जेएलआर ने पिछले महीने कहा था कि सेमीकंडक्टर की किल्लत और बढ़ सकती है तथा जुलाई-सितंबर तिमाही में उसके वाहनों की बिक्री पहले के अनुमान से तकरीबन आधी रह सकती है।

जेएलआर ने जुलाई में कहा था, 'आपूर्तिकर्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार 30 सितंबर को खत्म होने वाली तिमाही में चिप की कमी पहली तिमाही की तुलना में ज्यादा रह सकती है, जिससे वाहनों की बिक्री अनुमान से 50 फीसदी कम रह सकती है।' टाटा मोटर्स और जेएलआर की बिक्री लक्ष्य से पीछे रहने की घोषणा के बाद टाटा मोटर्स का शेयर जून के 355 रुपये के उच्च स्तर से घटकर आज 298 रुपये ही रह गया।

सेमीकंडक्टर की कमी के कारण जेएलआर का परिचालन नकद प्रवाह दूसरी तिमाही में करीब 1 अरब पाउंड और एबिटा मार्जिन ऋणात्मक रह सकता है। हालांकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में चिप की आपूर्ति में सुधार होने के बाद परिचालन में सुधार आ सकता है।जेएलआर ने चाल वित्त वर्ष में एबिटा मार्जिन कम से कम 4 फीसदी रहने और मुक्त नकद प्रवाह ब्रेक ईवन में आने का अनुमान लगाया था।

डिजिटल पहल के बारे में चंद्रा ने कहा कि टाटा डिजिटल रिटेल, यात्रा, वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहित कई प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। उन्होंने कहा, 'हमने 5जी नेटवर्क उपकरण के क्षेत्र में उतरने की भी घोषणा की है।'

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROPSECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

AASHKA HOSPITALS LIMITED CORPORATE INFINITEICATION PURITIES LIMITED

Our Company was originally incorporated as Private Limited Company in the name of "Aashka Hospitals Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated November 09, 2012 bearing Corporate Identification Number U85110GJ2012PT0072647 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to the special resolution passed by the shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting of our Company held on June 25, 2018 and consequent upon conversion the name of our Company was changed to "Aashka Hospitals Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated July 23, 2018 bearing Corporate Identification Number U85110GJ2012PLC072647 issued by the Registrar of Companies, Abrondohad Earthwiths education Report of Companies, edabad. For fur ther details, please refer to chapter titled "*History and Certain Corporate Matters*" beginning on page 155 of the Prospectus

Registered Office: Between Sargasan & Reliance Cross Road, Sargasan, Gandhinagar - 382421, Gujarat, India. | Tel:- +91-7575009000 Email Id: cs@aashkahospitals.in | Website: www.aashkahospitals.in | Contact Person: Kamleshbhai Patel, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTER OF THE COMPANY: BIPINCHANDRA SHAH

THE OFFER

INITIAL PURLIC OFFFR OF 84.00.000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00/- EACH ("EQUITY SHARES") OF AASHKA HOSPITALS LIMITED INITIAL PUBLIC OFFER OF 84,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00/- EACH ("EQUITY SHARES") OF AASHKA HOSPITALS LIMITED ("AASHKA" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹121.00/- PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING TO ₹10,164.00 LAKHS ("THE OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF \$4,00,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹6,534.00 LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 30,00,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS AND THE SELLING SHAREHOLDERS AND THE SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹3,630.00 LAKHS OF WHICH 4,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹121.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹111.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹111.00/- PER EQUITY SHARE SOF FACE VALUE OF ₹10.00/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹121.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹111.00/- PER EQUITY SHARE SOF FACE VALUE OF ₹10.00/- EACH AT A PRICE OF ₹121.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹111.00/- PER EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00/- EACH AT A PRICE OF ₹121.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹111.00/- PER EQUITY SHARE SOF FACE VALUE OF ₹10.00/- EACH AT A PRICE OF ₹121.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹111.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹111.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹111.00/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE DESIGNED SHARE SOF S

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10.00/- EACH AND THE ISSUE PRICE OF ₹121.00/- EACH THE ISSUE PRICE IS 12.10 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THIS ISSUE IS BEING MADE THROUGH FIXED PRICE PROCESS IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS), REGULATIONS, 2018 ("SEBI (ICDR), REGULATIONS") AS AMENDED AND RULE 192(18)(1) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED (THE "SCRR"), THIS ISSUE HAS BEEN MADE FOR LEAST 25,00% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED "OFFER PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 259 OF THE PROSPECTUS. A COPY OF THE PROSPECTUS HAS BEEN RAR OF COMPANIES, AHMEDABAD FOR FILING AS REQUIRED UNDER SECTION 26 OF THE COMPANIES ACT, 2013

FIXED PRICE ISSUE AT ₹121.00/- PER EQUITY SHARE
MINIMUM APPLICATION OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

PROGRAM

OPENS TODAY CLOSES ON: AUGUST 13, 2021 (FRIDAY)

UPI Mandate end time and date shall be at 12:00 pm on August 16, 2021

ASBA*

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.

UPI – Now Mandatory in ASBA for Retail Individual Investors (RIIs) applying through Registered Brokers, DPs and RTAs. RIIs also have option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the Bank A/c used for bidding is linked to their PAN
For details on ASBA and UPI process, please refer to the details given in Application Form, Abridged Prospectus and General Information
Document for investing in the public issue and also please refer to Section "Offer Procedure" beginning on page 259 of the Prospectus
ASBA Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited ("BSE") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the

website of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link; www.sebi.gov.in

IN TERMS OF THE CIRCULAR NO. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 DATED NOVEMBER 10, 2015 AND ALL POTENTIAL INVESTORS PARTICIPATE IN THE OFFER ONLY THROUGH APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA) PROCESS PROVIDING DETAILS ABOUT THE BANK ACCOUNT WHICH WILL BE BLOCKED BY THE SELF-CERTIFIED SYNDICATE BANKS (SCSBS) FOR THE SAME. FURTHER PURSUANT TO CIRCULAR NO. SEBI/HO/CFD/DILZ/CIR/P/2019/76 DATED JUNE 28, 2019 FOR IMPLEMENTION OF PHASE I FOR DUP ICILITY, WHICH IS EFFECTIVE FROM JULY 01, 2019 ALL POTENTIAL BIDDERS (EXCEPT ANCHOR INVESTORS) ARE REQUIRED TO MANDATORILY UTILIZE THE APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA) PROCESS PROVIDING DETAILS OF THEIR RESPECTIVE ASBA ACCOUNT OR UP ID (IN CASE OF RIIS), IN WHICH THE CORRESPONDING APPLICATION AMOUNT WILL BE BLOCKED BY THE SCSBS OR UNDER THE UPI MECHANISM, AS APPLICABLE.
FOR MORE DETAILS IN THIS REGARD, SPECIFIC ATTENTION IS INVITED TO THE "OFFER PROCEDURE" ON PAGE ON 259 OF THE PROSPECTUS. INCASE OF PILAY IE ANY INITING ICKNICA (SPETIMOT THE FIND) DIES COMPANY SHALL PAY THE INTERPST ON THE APPLICATION MONEY AT THE RATE OF 15 00% PER

DELAY, IF ANY, IN UNBLOCKING / REFUND THE FUND, OUR COMPANY SHALL PAY THE INTEREST ON THE APPLICATION MONEY AT THE RATE OF 15.00% PER

PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME"), in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle Approval Letter dated July 16, 2021 from BSE Limited for using its name in the offer document for listing of our shares on the BSE SME. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the RSE I mitted.

be the BSE Limited.

Instead of the CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA USES Invited in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) SISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA USES IN 15 of 18 DISCLAIMER CLAUSE OF BSE LIMITED (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE LIMITED (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): Its to be distinctly understood that the permission given by the SSE Limitlet ("SSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the Equity Shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness accuracy or completeness and yof the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the SME Platform of the BSE Limited" on page 237 of the Prospectus. RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first public issue of our

company, there has been no formal market for the securities of our company. The face value of the shares is ₹10.00/- per equity share and the Issue Price is 12.10 times of the face value. The Issue Price is determined by our Company, the Promoter Selling Shareholders and the Selling Shareholders in consultation with the Lead Manager) as stated in the chapter titled on "Basis for Offer Price" beginning on page 92 of the Prospectus should not be taken to be indicative of the market price of the equity shares after the equity shares are listed. No assurance can be given regarding an active and/or sustained trading in the equity shares of our company nor regarding the price at which the equity shares will be traded after listing.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless the can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to rea the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. Fo taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares offered in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Issue have neither been recommended nor approved by Securities and hange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India

Prospectus.

Prospectus. LIARILITY OF MEMBERS: Liability of the Members of the Company is limited

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE:
Authorised Share Capital is ₹2,500.00 lakhs divided into 2,50,00,000 Equity
Shares of face value of ₹10.00 /- each. Issued, Subscribed and Paid-up Share
Capital prior to the offer is ₹1,800.00 lakhs divided into 1,80,00,000 fully paid Equity Shares of ₹10.00/- each. Proposed Post Issue Paid-up Share Capita ₹2,340.00 lakhs divided into 2,34,00,000 Equity Shares of ₹10.00/- each. For details of the share capital and capital structure of the Company, please refer to chapter titled "Capital Structure" on page no. 61 of the Prospectus.

NAME OF THE SIGNATORIES TO MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND THE

NAME OF THE SIGNAL ORDES OF THEM: Bipinchandra Shah, Dr. Parag Thaker, Dr. Rajendra Raval, Haresh Shah and Dr. Kaushik Gajjar are the original subscribers to the Memorandum of Association who subscribed 6,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 Equity Shares each respectively of ₹10.00/- each aggregating to 10,000 Equity Shares.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE

FEDEX SECURIITIES PRIVATE LIMITED B 7, 3rd Floor, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 057 Maharashtra, India. Tel No.: +91 81049 85249 Fax No : Not Available rax no.: Not Available Investor Grievance Email Id: mb@fedsec.in Website: www.fedsec.in Contact Person: Yash Kadakia SEBI Registration No.: INM000010163

Accurate.

LIMITED
203, Shangrila Arcade, Above Samsung
Showroom, Near Shyamal Cross Road,
Satellite, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India.
Tel No: 079 - 48000319
Website: www.accuratesecurities.com
Email Id: investor@accuratesecurities.com Investor Grievance Email Id: investor@accuratesecurities.com Contact Person: Ankur Shah

SEBI Registration Number: INR000004173

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Between Sargasan & Reliance Cross Road, Sargasan, Gandhinagar - 382421, Gujarat, India. Tel: +91-7575009000 **ACCURATE SECURITIES & REGISTRY PRIVATE**

Website: www.aashkahospitals.ir

Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Manager or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that Investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of Stock Exchange at www.beindia.com, the website of our Company at www.aashkahospitals in and also on website of Lead Manager at www.fedsec.in. AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application Forms can be obtained from the Registered Office of Aashka Hospitals Limited and the Lead Manager to the Issu urities Private Limited, Application forms shall be available at selective location of Registered Brokers. Bankers to the Issue, RTA and Depository Participants Application Forms can be obtained from the website of BSE Limited and at the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of BSE Limited

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): The investors are required to fill the application form and submit the same to the relevant SCSBs at the specific locations or registered brokers at the broker centers or RTA or DPs. The SCSBs will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in Application Form and the Prospectus and also please refer to the chapter titled "Offe

APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 APPLICATION SUPPORTED WITH UNIFIED PAYMENTS IN IERHAGE (UPI): INVESTORS are advised to calciumy retra accommonation of control of a dated. November 01, 2018 and as modified through its SEBI circular (SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/50) dated April 03, 2019, SEBI circular (SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/85 dated July 26, 2019, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/85 dated July 26, 2019, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/50 dated March 30, 2020, for the procedure to be followed for applying through UPI. Further, SEBI vide its circular no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/2480/1/M dated March 16, 2021 as amended pursuant to SEBI SEBINOVER/DICAS/CHY/ZU19/133 dated investment of, 2019 and 58 birticular in S. SEBINOUT DICAS/CHY/ZU20/30 dated water 13, 2020, in the procedure to be followed for applying through IPI. Further, SEBI vide its circular no. SEBINHO/CFI/DIL2/CIR/P/2021/2840, 2021 as amended pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/CFI/DIL2/P/CIR/2021/570 dated June 2, 2021, has introduced certain additional measures for streamlining the process of initial public offers and redressing investors whose bank is not live on IPI as on date of this circular, may use the other alternate channels available to them viz. Submission of application form with SCSBs/ using the facility linked online trading, demat and bank account list. For further details, please refer the chapter titled "Offer Procedure" beginning on page 259 of the Prospectus

Sponsor Banker/ Banker to the Issue and Refund Banker to the Issue: ICICI Bank Limited All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus. Investor should read the Prospectus carefully, including the "Risk Factors" beginning on page 23 of the Prospectus before making AASHKA HOSPITALS LIMITED

On behalf of the Board of Direct

Date: August 09, 2021

Bipinchandra Shah, Chairman and Managing Director DIN: 00934108

AASHKA HOSPITALS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an Initial Public Offer of its Equity Shares and has flied the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.fedsec.in, website of the BSE Limited at www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.aashkanospitals.in. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 23 of the Prospectus.

The Equity Shares offered in this Offer have not been and will not be registered under the US Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of; "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the Up persons reasonably believed to be "Qualified Institutional Buyers" (as defined in Rule 144A of the Securities Act) under Section 4(a) of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transaction in reliance on Regulation S under the Securities Act and securities Act also also securities Act and securities Act and securities Act and (ii) outside the United States in offshore transaction in reliance on Regulation S under the Securities Act and selection 4(a) of the Securities Act, and (ii) outside the United States in Offshore transaction in reliance on Regulation S under the Securities Act and selection 4(a) of the Securities Act, and (ii) outside the United States in Offshore transaction in reliance on Regulation S under the Securities Act and selection 4(a) of the Securities Act, and (ii) outside the United States in Offshore

under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offer and sales occu

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.